

ANNA INFRASTRUCTURES LIMITED

CIN: L65910UP1993PLC070612

R/o: Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002
Email ID: annainfra@gmail.com, Website: www.annainfrastructures.com, Telephone: 0562-2526650

Date: 27.01.2021

To,
The Manager,
Department of Corporate Relationship
The Bombay Stock Exchange Limited
25 P.J. Tower, Dalal Street,
Mumbai- 400001

Ref: Scrip ID- ANNAINFRA, Scrip CODE- 530799, ISIN- INE336D01014

Sub: Intimation of Board Meeting and Closure of Trading Window

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that the meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Friday, 12th February, 2021** (1:00 P.M.) at Shop No. 1 & 3, E-14/6, First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002 to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results for the Quarter ended on December 31, 2020.

Also notice of Board Meeting has been published on **26th January, 2021** in newspapers i.e. The Financial Express, English Daily and Jansatta, Hindi Daily.


Further, pursuant to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the terms of Code of Conduct for prevention of Insider Trading of the Company the Trading Window for dealing in the Securities of the Company has been closed from January 26, 2021 (Tuesday) to 13th February, 2021 (Saturday) (both day inclusive).


Kindly take the above information on record.

Thanking You,

Yours Sincerely,

For Anna Infrastructures Limited


Anil Kumar Agarwal
(Whole time Director)



KARVY FINANCE

POSSESSION NOTICE
(for Immovable Property)

Corporate Office: Karvy Financial Services Ltd. 705/706, 7th Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg, Opp to Guru Nanak Hospital, Bandra (E), Mumbai - 400051. Email - abdulatif.patel@karvy.com

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Karvy Financial Services Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002) and in exercise of the power conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 5th September, 2020 calling upon the Borrower Mr. Vinay Ram Prasad Gupta and Co-Borrower Mrs. Push Lata Gupta to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 50,51,434/- (Rupees Fifty Laks Fifty One Thousand Four Hundred and Thirty Four Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice/s.

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 20th day of January of the year 2021.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Karvy Financial Services Ltd., for the amount of Rs. 50,51,434/- and interest thereon as per loan agreement. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Loan Agreement No. Name of the Borrower/ Co Borrower	Demand Notice date & Amount	Date & Type of possession Taken	Description of the Immovable Properties
1.	Loan Agreement No 500095, 511069 1. Mr. Vinay Ram Prasad Gupta 2. Mrs. Push Lata Gupta	5th Sept. 2020 and Rs. 50,51,434/-	20th Jan, 2021	Shop admeasuring Carpet Area 167.70 sq.ft in L.G.F and 208.33 sq.ft in U.G.F situated at Lower Ground Floor and Upper Ground Floor, H No. 14347, Jockey Walli Gali, Aminabad Chandra Mahal Complex, Lucknow, Uttar Pradesh, Pin code - 228004 North By: Chandra Mahal Complex, South By: 20ft Wide Road, East By: Shop of Abdullah, West By: 20ft Wide Lane

Sd/-
Authorized Officer
KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED

Place: Lucknow (UP)
Date : 26th Jan, 2021

TUESDAY, JANUARY 26, 2021 FINANCIAL EXPRESS

20

For All Advertisement Booking

Call : 0120-6651214

KARVY FINANCE

POSSESSION NOTICE
(for Immovable Property)

Corporate Office: Karvy Financial Services Ltd. 705/706, 7th Floor, Hallmark Business Plaza, Sant Dyaneshwar Marg, Opp to Guru Nanak Hospital, Bandra (E), Mumbai - 400051. Email - abdulatif.patel@karvy.com

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of the Karvy Financial Services Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (Act, 2002) and in exercise of the power conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 16th September, 2020 calling upon Co-Borrower Neetu Manoj Talwar wife of deceased Manoj Amarnath Talwar to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 52,36,264/- (Rupees Fifty Two Lakhs Thirty Six Thousand Two Hundred and Sixty Four Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice/s.

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this 18th day of January of the year 2021.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property/ies and any dealings with the property/ies will be subject to the charge of Karvy Financial Services Ltd., for the amount of Rs. 52,36,264/- and interest thereon as per loan agreement. The borrower's attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Loan Agreement No. Name of the Borrower/ Co Borrower	Demand Notice date & Amount	Date & Type of possession Taken	Description of the Immovable Properties
1.	Loan Agreement No 415030 Neetu Manoj Talwar (W/O deceased husband Manoj Amarnath Talwar,	16th Sept. 2020 and Rs. 52,36,264/-	18th Jan, 2021	Flat No. 659, admeasuring about 280 Sq. Ft. Built up Area, First Floor, Block No. JG II, Janta Category, in the layout plan of Housing Estate at Vikas Puri, New Delhi - 110 018, North By: Passage, South By: Open, East By: Open, West By: Flat No. 578

Sd/-
Authorized Officer
KARVY FINANCIAL SERVICES LIMITED

Place : New Delhi
Date : 26th Jan, 2021

Regional office :- Gurgaon Region, 12th Floor, 16 Sansad Marg, New Delhi

Email id: Email id :-recovery.gurgaon@bankofbaroda.com.
Tel: 0110 Tel : -011-2344-1205/1241/1218/1243 MB : - 9354042543

ANNEXURE-E SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE/MOVABLE PROPERTIES/ASSETS "APPENDIX-IV-A" [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Proviso to Rule 6(2) & 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor(s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned accounts. The details of Borrower/s/Mortgagor/s/Guarantor/s/Secured Assets/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

Name of the Branch & Account	Details of property/Vehicle	Amount as per Demand Notice	Reserve price EMD	Date/Time of e-Auction	Status of Possession (Symbolic / Physical)	Inspection Date and time	Authorized officer/ Contact Person and contact no.
Jawahar Colony, Fandabad Branch Account: Ms. Priyanka Pandey Owner Of The Property: Ms Priyanka Pandey	Residential Vacant Plot No. 7071, Sector 56-56A, Urban Estate, Fandabad, Haryana having measurement of 45 sq. meter.	Rs. 17,25,573.75 [Rupees Seventeen Lakhs Twenty Five Thousand Five Hundred Seven Threes and Paise Seventy Five] plus costs, charges and out of pocket interest as per demand notice dated 11-06-2020	Rs. 18,00,000/- Rs. 1,80,000/- Rs. 10,000/-	10.02.2021 from 2.00 pm to 6.00 pm	Physical	01-02-2021 TO 06-02-2021 during office hours, with prior appointment.	Mr. Subhash Raaga, Mob No. 8448282318, 9910000804 Email ID: jawfara@bankofbaroda.com

For detailed terms and conditions of sale, please refer to the link provided in <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and <https://bap.in>. Also, prospective bidders may contact the authorized officer on Tel No./Mobile as mentioned in above table.

Authorized Officer, Bank of Baroda

IDFC FIRST Bank Limited

IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)
CIN : L65107N2014PLC097792
Registered Office: KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chelpet, Chennai - 600031.
Tel: +91 44 4564 4000 | Fax: +91 44 4564 4022

APPENDIX IV [Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

Whereas the undersigned being the authorised officer of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 25.03.2019 calling upon the borrower, co-borrowers and guarantors 1.Kapsons Engineers Pvt Ltd, 2.Sprint Cars Pvt Ltd, 3.A.K. Motors Pvt Ltd, 4.Nawab Auto Engineering Pvt Ltd, 5.Shri Atul Kapoor, 6.Shri Anuj Kapoor, 7.Smt.Asha Kapoor, 8.Smt. Abha Wasan, to repay the amount mentioned in the notice being Rs.27,97,96,908.20/- (Rupees Twenty Seven Crores Ninety Seven Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Eight And Paise Twenty Only) as on 19.02.2019 within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower/s having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Physical Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of Section 13 of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 22nd day of January 2021.

The borrower/s in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the IDFC First Bank Limited (erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited) for an amount of Rs.27,97,96,908.20/- (Rupees Twenty Seven Crores Ninety Seven Lakh Ninety Six Thousand Nine Hundred Eight And Paise Twenty Only) and interest thereon.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable properties.

All the piece and parcel of the property consisting of All that part and parcel of property built up on Plot No.554, Pace City-2, Sector-37, Gurgaon, Haryana-122001. (Measuring 7889.23 Square Yards) Bounded As: East-Wide Road, North-Plot No.553, West-Other Property, South-Plot No.555

Authorized Officer
IDFC First Bank Limited
(erstwhile Capital First Limited and amalgamated with IDFC Bank Limited)

Date: 22-01-2021
Place: Gurgaon.
Loan Account No: 4557593, 3738474, 4021886 & 4561290.

Canara Bank

Regional Office - Etah

E-AUCTION NOTICE

E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 READ WITH PROVISIO TO RULE 8 (6) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Last Date & Time for receipt tender document : 25.02.2021 up to 5.00 PM
Date & Time of e-auction : 26.02.2021 from 11.30 AM to 12.30 PM

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors, the Symbolic possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" On 26.02.2021

Name & Address of Borrowers & Guarantors	Amount due as per notice	Description of Properties	Reserve Price EMD 10%
Branch : Ferozabad Tilak Nagar Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 9412751063, e-mail id : cb18814@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 88143020000085, IFSC Code: SYNB0008814			
Borrower - M/s Ganga Jamuna Bangle Store, Prop. Mohammad Rizwan Khan, Add.-H. No. 231 Gali No. 13 Galib Nagar Jatav Puri, Firozabad, Mohd Rizwan Khan S/o Noor Islam, Add.-H. No. 237 Garb Nabas Masjid Ghali Nagar Firozabad, Guarantor - Noor Islam S/o Bangali Khan, Add.-H No. 231, Gali No. 13, Galib Nagar, Jatav Puri, Firozabad	₹ 12,89,442/- + intt. & Other Expe. thereon from 01-10-2020	Land & Building bearing of Two properties, situated at Mohalla Galib Nagar near Municipal No. 259, City & Distt. Firozabad, Area-(128+256 Sq. Ft.) Total Area 384 Sq. Ft. or 35.68 Sq. Mtr., Bounded as: East-Plot of Shri Noor Islam, West-Plot of Noor lmad, North-Plot of Shri Hazi Vaseer, South -Gali/Rasta 12 Ft. Wide,	₹ 9,05,000/- ₹ 90,500/-
Borrower - M/s Nanney Bangle Store, Prop. Bai Akhtar S/o Nanney Khan, Guarantor - Nanne Khan S/o Late Abdul Raheem, Add.-H. No. 183, Gali No. 10, Shish Gram Hazipur, Firozabad	₹ 15,64,768.79 + intt. & Other Expe. thereon from 01-01-2020	Residential House at Mohalla Hazipura, City Firozabad, Opp. Mannat Cafe in Municipal No. 534/18, Area-118.57 Sq. Mtr., In the name of Shri Nanney Khan S/o Late Abdul Raheem, Bounded as: East-Gali Rasta, West-Arzi of Seller, North-Plot of Shri Hazi Sabir, South-Arzi of Seller.	₹ 17,16,000/- ₹ 1,71,600/-
Branch : Ganjundwara, Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192804564, e-mail id : cb0242@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 0242296000001, IFSC Code: CNRB0000242			
Borrower - M/s Flour Mill Udhog, Prop. Mohammad Yusuf S/o Munnu Khan, Add.-Mohalla Kedar Ganj Road, Ganjundwara, Distt. Kasganj, Guarantor - Anubhav Pratap Singh S/o Rishi Pal Singh, Add.-C/O Vikas Textiles Thana Road, Ganjundwara, Distt. Kasganj.	₹ 11,26,079/- + intt. & Other Expe. thereon from 01-07-2020	House situated at Moh. Kadar Ganj Road, Ganjundwara, Distt. Kasganj, Area-25.20 Sq. Mtr., Bounded as: East-Gali 8 Ft., West-House Prem, North-Gali 8 Ft., South-House Prahlad.	₹ 6,53,000/- ₹ 65,300/-
Borrower - M/S Manas Foods, Prop. Ram Raghu Gupta S/o Shri Krishan Das, Add. of Both-Railway Road, Gandhi Road, Ganjundwara, Distt. Kasganj Guarantor - Pankaj Kumar Gupta, Raghvendra Gupta Both S/o Shri Krishan Das, Annappa Devi W/o Shri Krishan Das, Add.-Railway Road, Gandhi Road, Ganjundwara Distt. Kasganj.	₹ 3,63,532.82 + intt. & Other Expe. thereon from 01-07-2020	House Cum Shop Property Situated at Railway Road, Gandhi Road, Ganjundwara, Dist- Kasganj, Area-150.70 Sq. Mtr., In the name of Ram Raghu Gupta S/o Shri Krishan Das, Pankaj Kumar Gupta S/o Shri Krishan Das, Raghvendra Gupta S/o Shri Krishan Das, Bounded as: East-Dahli Jagadish Pd. Ramesh Chand, West-Sarak (Road), North-Shop Ujagarial, South-Shop Jagadish Pd. Ramrsh Chand.	₹ 67,23,000/- ₹ 6,72,300/-
Branch : KUMTS Etah Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192800015, e-mail id : cb2977@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 2977296000001, IFSC Code: CNRB00002977			
Borrower - M/s Om Camphor Products, Prop: Sunil Sharma, Guarantor/Mortgagee- Smt. Prabha Sharma W/o Sunil Sharma, Add. of Both-Moh Narayan Nagar 284, Civil Lines Etah.	₹ 22,75,329/- + intt. & Other Expe. thereon from 01-04-2009	Residential Property Situated at Moh Narayan Nagar 284, Civil Lines Etah, Area-55.17 Sq. Mtr., in name of Prabha Sharma, Bounded as: East-Rasta (15'0"), West-Prop of Devi Batika (16'6"), North-House of Ram Vinod, South-House of Rathor.	₹ 14,05,000/- ₹ 1,40,500/-
Branch : Firozabad Main Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192804562, e-mail id : cb0373@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 0373296000001, IFSC Code: CNRB0000373			
Borrower - Smt. Radha Devi W/o Sh. Mahesh Chand, Guarantor/ Mortgagee - Sri. Mahesh Chandra S/o Sh. Late Ranjeet Singh, Add. of Both-H. No. 53/2 Nagla Vishnu, Line Par, Near Mata Mandir, Firozabad	₹ 3,88,469/- + intt. & Other Expe. thereon from 15-01-2009	Residential Property situated at H. No. 53/2, Nagla Vishnu, Line Par, Near Mata Mandir, Firozabad, Area-93.00 Sq. Mtr., Bounded as: East-Rasta 10 ft. wide, West-Khet Ashok Kumar, North-Plot of Laxmi Narayan, South-Rasta 10 ft. wide.	₹ 4,01,000/- ₹ 40,100/-
Branch : Kasganj Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192804593, e-mail id : cb0241@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 0241296000001, IFSC Code: CNRB0000241			
Borrower - Smt. Roshan Singh S/o Mr. Genda Lal, Guarantor/Mortgagee - Smt Meena Devi W/O Smt. Roshan Singh, Smt. Dulari Devi W/O Mr. Genda Lal, Add. of All-Vill. Nagla Bhandari, Post Bahadurpur, Distt. Kasganj.	₹ 39,04,802/- + intt. & Other Expe. thereon from 30-10-2018	Property being house situated at Mauza Banker, Near PWD office & Mission Chauraha Kasganj, Area-153.00 Sq. Mtr., in the name of Smt. Dulari Devi, Bounded as: East-Rasta, West-Prop. of Sri Ram Babu, North-Prop. of Smt Rana Jaiju, South- Property of Sri Kailash Chandra.	₹ 34,73,000/- ₹ 3,47,300/-
Branch : Dhumi Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192800029, e-mail id : cb0398@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 0398296000001, IFSC Code: CNRB0000398			
Borrower - Mr. Shiv Kumar Singh Chauhan, S/o Latori Singh, Guarantor/ Mortgagee - Smt Suneeta W/o Sri. Shiv Kumar Singh Chauhan, Add. of Both-Vill. Khawa Shekhpura, Etah.	₹ 40,73,639.29 + intt. & Other Expe. thereon from 01-04-2019	Property 1 : Commercial property, situated at Dhumi, Sidhpura Road, Etah, Area-40x185 Sq. Ft., in the name of Sri Shiv Kumar Singh S/o Sri Latori Singh, Bounded as: East-Property of Sri Ram Kumar Singh, West-Property of Sri Kamlesh, North-Road, South-Thakur Latori Singh College. Property 2 : situated at Dhumi Teh. Aliganj Distt. Etah, Area-101.87 Sq. Mtr., in the name of Smt Suneeta W/o Sri Shiv Kumar Singh, Bounded as: East-Gali, West-Property of Sri Yogendra Kumar, North-Open Plot, South-Road.	₹ 79,74,000/- ₹ 7,97,400/- ₹ 30,76,000/- ₹ 3,07,600/-
Branch : Firozabad Sadar Branch Contact Detail : Branch Manager, Ph. No. 8192804563, e-mail id : cb2167@canarabank.com EMD A/C Details: A/C No. 2167296000001, IFSC Code: CNRB0002167			
Borrower - M/s Laxmi Building Material, Prop. Shri Vinay Kumar S/o Shri Ashok Pal Singh, Guarantor/Mortgagee - Shri Ashok Pal Singh S/o Shri Shankar Lal, Add. of All- Bhikanpur Raipura Road, Firozabad.	₹ 14,58,873/- + intt. & Other Expe. thereon from 01-01-2019	Property Municipal No. 2, Mohalla Ganga Nagar, Mauza Bhikanpur, Meghpur, Raipura Road, Firozabad, Area-193.83 Sq. Mtr.] Bounded as: East-Raipura Road, West-Khet of Sri Ram Gopal, North-Khet of Sri Chute Lal, South-Plot of Sri Karan Singh.	₹ 22,46,000/- ₹ 2,24,600/-
Borrower - Mohd. Usman S/O Mohd. Yusuf Add.- 14/4, Moh. Kurashiyar, Firozabad, Guarantor/Mortgagee - Mrs. Akila Begum W/o Sh. Mohd. Usman, Add.- Tapa Kalan, Jalesar Road, Firozabad.	₹ 5,57,114/- + intt. & Other Expe. thereon from 27-01-2020	Residential Plot situated at Mohila Rasoolpur, Teh. & Distt. Firozabad, Area-1125 Sq. Ft., Bounded as: East-House of Narayan, West-Rasta, North-Plot of Ram Khliadi, South-House Lajja Ram.	₹ 14,99,000/- ₹ 1,49,900/-
Borrower - M/s Reliance & Company Store, Prop: Sri Nazeem Hussain S/o Sri Noor Mohd. Nazim, Add.-Taj Market Firozabad, Guarantor/Mortgagee -1.Sri Nazeem Hussain S/o Sri Noor Mohammad Nazim, 2. Smt. Nahid Begum W/o Sri Nazeem Hussain, Add. of Both - H. No. 195/2A Old Rasoolpur, Near Police Chowki, Firozabad	₹ 48,80,001/- + intt. & Other Expe. thereon from 05-08-2019	House No.195/2A, Mohalla Rasoolpur, Mauza Lalpura, Firozabad, Area-111.60 Sq. Mtr., in name of Sri.Nazeem Hussain S/o Sri Noor Mohammad Nazim and Smt. Nahid Begum W/o Sri. Nazeem Hussain, Bounded as: East-Rasta 15 ft. wide, West-Property of Geetam Singh, North-Property of Raj Kumari, South-House of Geetam Singh.	₹ 34,33,000/- ₹ 3,43,300/-
Borrower - M/s Rihan Building Store, Prop. Sri Mohd. Ifran S/o Sri Aminuddin, Add.-122 Gali No. 4, Ramgadh Road, Firozabad, Guarantor/Mortgagee - Sri Mohd. Sajid Ali Khan S/o Sri Rasheed Ahmad Khan, Add.- 109 A Nagalabari, Firozabad	₹ 12,77,421.75 + intt. & Other Expe. thereon from 09-12-2019	Property being house situated at Mauza Didamdi, Mohalla Sharifabad, Ramgarh, Firozabad, Teh. & Distt. Firozabad, Area-52.27 Sq. Mtr., Bounded as: East-Plot of Kasab Khan, West-Plot of Azizuddin & others, North-Rasta 10 Ft., South-Arari of Sanak Singh	₹ 13,21,000/- ₹ 1,32,100/-
Borrower - 1. M/s Riya General Store, Prop- Sri Vimal Jain S/o Sri Sunhari Lal Jain, Add.- Subhash Chauraha, Near Jain Mandir, Firozabad, 2. Sri Vimal Jain S/o Sri Sunhari Lal Jain, Add.-233/35, Jain Nagar Khera Firozabad, Guarantor/Mortgagee-Smt Nutan Jain W/o Sri. Vimal Jain, Add.- 233/35, Jain Nagar Khera, Firozabad	₹ 8,41,304/- + intt. & Other Expe. thereon from 01-12-2017	Residential Building situated at Mohalla Jain Nagar Khera, Mauza Sukhmalpur Nizamabad Khasra No. 451 Teh. & Distt. Firozabad, Area-65.10 Sq. Mtr., in the name of Smt Nutan Jain W/o Sri Vimal Jain, Bounded as: East-Prop. of Sri Pramod, West-Property of Sri. Pandit Ji & Sher Singh, North-Rasta Gali 12ft., South-Plot of Mr. Jain.	₹ 11,72,000/- ₹ 1,17,200/-

For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in Canara Bank's website : www.canarabank.com or may contact OR the service provider M/s "e-Procurement Technologies Limited Mr Dharam Rathod & Mr. Hardik Goswami, Contact no. 09374519754 & 9978434773, Email id: support@auctiontigger.net & hardik@auctiontigger.net Auction/bidding shall be only through "online Electronic Bidding" through the website portal <https://canarabank.auctiontigger.net> Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceeding.

Place : Etah Date : 26-01-2021 Authorized Officer

CASTEX TECHNOLOGIES LIMITED

(Formerly Known as Amtex India Limited)
CIN: L65921HR1983PLC033789
Regd. Office: Village Narsinghpur, Mohammadpur, Old Manesar Road, Gurgaon, Haryana-123106
Corporate Office: 3 LSC Pamposh Enclave, Greater Kailash-I, New Delhi-110048
Tel: +91-11-42344444 | Fax: +91-11-42344400
E-mail: info@castextechnologies.com | Web: www.amtek.com

NOTICE OF 37TH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM), E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

Notice is hereby given to the Members of Castex Technologies Limited ("Company") that the 37th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday 19th February, 2021 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (Other Audio Visual Means (OAVM)) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, and General Circular 02/2021 dated January 13th, 2021 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars").

The Company has on 25th January 2021 duly completed the dispatch of Notice to Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Share Transfer Agent and Depositories along with E-voting Instructions, dated 23rd January 2021 for 37th Annual General Meeting for Financial Year 2019-20 by electronically along with the details of Login ID and Password. The requirement of sending physical copies of the Notice of the AGM has been dispensed with vide MCA Circulars and the SEBI Circular.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Saturday, the 13th February, 2021 to Friday, the 19th February, 2021 (both days inclusive) for taking record of Members of the Company for the purpose of 37th Annual General Meeting.

Further pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 as amended and substituted by Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the 37th Annual General Meeting (AGM) by electronic means (remote e-voting). The facility for online voting through electronic means shall also be made available at the AGM and Members who have already cast their votes through electronic mode during the schedule voting period prior to the date of the meeting will not be entitled for online voting as on the date of the AGM. Members participating through the VC/OAVM shall be reckoned for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (hereinafter referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. The details pursuant to the provisions of the Act & Rules are given hereunder:

- The remote e-voting shall commence on Tuesday, 16th February 2021 (9:00 a.m. IST);
- The remote e-voting shall end on Thursday, 18th February 2021 (5:00 p.m. IST);
- The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is Friday, the 12th February, 2021;
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, the 12th February, 2021 may obtain the login ID and password by sending a request at beatlita@gmail.com or helpdesk.evoting@cdsindia.com or Call 1800225533. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting than existing user ID and password can be used for casting vote through e-voting process;
- The Notice of AGM and the Annual Report 2019-20 is available at company's website at www.amtek.com/allpdp and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE website www.bseindia.com and NSE website www.nseindia.com;
- For Detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section "Notes" in Notice of the 37th AGM;
- Members who have not cast their vote by remote e-voting and are present in the AGM through VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM;
- Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again;
- In case queries or issues regarding e-voting, member may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting user manual for members on www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdsindia.com, or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-230584542)

For Castex Technologies Limited
(A Company under Corporate Insolvency Resolution Process)
Sd/-
Divya Rijwani
(Company Secretary)
Mr. Dinkar Tirunadapuram Venkatasubramanian
IP Registration No. : IBS/IPA-001/IP-P00003/2016-17/10011

Castex Technologies Limited is under Corporate Insolvency Resolution Process of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Its affairs, business and assets are being managed by the Interim Resolution Professional, Mr. Dinkar T. Venkatasubramanian, appointed by the National Company Law Tribunal order dated 20th December, 2017 w.e.f., 22nd December, 2017 and continued as Resolution Professional by the Committee of Creditors in its meeting held on 12th January, 2018 under the provisions of the Code. In terms of the approved resolution plan by NCLT vide its order dated 15th December 2020, the management of the affairs of the Company has been vested with the Resolution Professional/Insolvency Professional until the date of transfer of control of the Company to the successful resolution applicant.

Place: New Delhi
Date: 25.01.2021

B. L. KASHYAP AND SONS LIMITED

[CIN: L74899DL1989PLC036144]
Regd. Off.: 409, 4th Floor, DLF Tower-A, Jasola, New Delhi - 110025
Ph: 011-40500300, 011-43058345, fax: 011-40500333
Email : info@bkashyap.com; Website: www.bkashyap.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 (1) read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 10th day of February, 2021 to consider inter alia, unaudited Standalone and Consolidated financial results of the Company for the quarter and Nine Months ended 31st December, 2020.

The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.bkashyap.com> and also on the website of stock exchanges at <https://www.nseindia.com> and <https://www.bseindia.com>.

For B.L. Kashyap And Sons Limited
Sd/-
(Pushpak Kumar)
GM-Corporate Affairs & Company Secretary

Dated: 25th January, 2021
Place: New Delhi

WE BUILD YOUR WORLD

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से अजमेर सिंग "सेंट्रल" TO YOU SINCE 1911
BRANCH OFFICE: 272, CAPTAIN GAUR MARG, PHASE-3, OKHLA, NEW DELHI-110020

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix -IV [See Rule - 8(1)]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the CENTRAL BANK OF INDIA, Okhla Industrial Estate, New Delhi Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice dated 07/10/2019, calling upon the Borrower: SHRI LAKHVINDER SINGH S/O. BALDEV SINGH AND SHRI PALVINDER SINGH S/O. BALDEV SINGH, (Rupees Eleven Lakhs Ninety Three Thousand Two Hundred Fifteen Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 29.08.2019. Out of the total amount due as above you have paid Rs.73/- instead of the amount mentioned in the said notice with future interest and incidental charges. The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of section 13 of the Act read with

NIIT एनआईआईटी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, पुष्प रवि चार मार्ग, बालरावपुरी, नई दिल्ली-110019
 फोन नं.: +91-11-41875000, ई-मेल नं.: +91-11-41407120
 CIN: L74899DL1981PLC015865
 वेबसाइट: www.niit.com; ई-मेल: investors@niit.com

सूचना
 एतद्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध अधिनियमों एवं प्राकटीकरण अधिनियम) विनियमवली 2015 के विनियम 47 के साथ पंजीकृत विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नीमाधी के लिए कर्जविवरण एवं स्टॉकहोल्डरों के नामों का अंशोक्ति विवरण परिणामों पर विचार और स्वीकृत करने हेतु कंपनी के निदेशक बनेकरी के बीच शुक्रवार, 05 फरवरी, 2021 को आयोजित की जाएगी।

इस जानकारी कंपनी की वेबसाइट अवधि www.niit.com पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के रोजर सूचीबद्ध है अर्थात् बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध है।

Criminal Courts, Ludhiana
 In The Court Of Sh. Gurdashan Singh J.M.C.
 Ludhiana **NEXT DATE: 25-02-2021**
 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on
<http://judistricts.accounts.gov.in/ludhiana>
 Case No. PBLD03-045990-2017

Kotak Mahindra Bank
 Mohd Rafi
 To, Mohd Rafi A/R no.202, Vih Khweda Tando, Post Ajmal Nagar, Teh Sahi Rampur-244924 Uttar Pradesh
 whereas it has proved to the satisfaction of this court that the above named accused/accused person can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear in person before this court on 25-02-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details login to: https://highcourtcourt.gov.in/77srdistrict_notice&district=ludhiana J.M.C Ludhiana

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
 1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 150, मधुवा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

कच्चा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बदरपुर, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 02/02/2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: मैसर्स गोविन्द राम एण्ड संस मालिक श्री प्रदीप अनापु पुत्र श्री गोविन्द राम अनापु, गुरास्ट-श्री राम चन्द्र राम कृष्ण एवं श्रीमती प्रसन्नवती पत्नी श्री गोविन्द राम अनापु**, को सूचना में उल्लिखित राशि **₹ 1.65,10,606/-** (एक करोड़ सैंस लाख दस हजार रु. सौ 8: रुपये मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अर्जित ब्याज के साथ आगे ब्याज एवं लागत के साथ आपका दी गई विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। उक्त सूचना में उल्लिखित राशि में से, आपने भविष्य के ब्याज एवं आकर्षित शूल्क के साथ उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बजाय **₹ 48,83,000/-** (अड़तालिस लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का भुगतान किया है। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा दिनांक 22 जनवरी, 2021 को ले लिया है। कर्जदार को गुराटर को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **₹ 1.65,10,606/-** (एक करोड़ सैंस लाख दस हजार रु. सौ 8: रुपये मात्र) उस पर आगे ब्याज, खर्च एवं अन्य शूल्क के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बदरपुर, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद 13 के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
 1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 272, कैप्टन गार्ग मार्ग, फुंज-3, ओखला, नई दिल्ली-110020

कच्चा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

जबकि वित्तीय आरिक्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) के अंतर्गत **सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना दिनांक 07/10/2019 जारी की थी, जिसके द्वारा **कर्जदार: श्री लखविर सिंह पुत्र बलदेव सिंह एवं श्री पलविरिन्द सिंह पुत्र बलदेव सिंह**, को सूचना में उल्लिखित राशि **₹ 11,93,215/-** (ग्यारह लाख तिरानबे हजार दो सौ पन्द्रह रुपये मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर 29.08.2019 से गतिवृत्त के ब्याज एवं आकर्षित शूल्क के साथ चुकाने के लिए कहा गया था। उक्त सूचना में दी गई कुल राशि में से, आपने भविष्य के ब्याज एवं आकर्षित शूल्क के साथ उक्त सूचना में उल्लिखित राशि के बजाय **₹ 73/-** का भुगतान किया है। कर्जदार के इस राशि को चुकाने में असफल रहने के कारण, कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़े जाने वाले कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा दिनांक 21 जनवरी, 2021 को ले लिया है। कर्जदार को विशेष तौर पर तथा आम जनता को सामान्य तौर पर एतद्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन न करें और सम्पत्ति का कोई भी लेनदेन **₹ 11,93,215/-** (ग्यारह लाख तिरानबे हजार दो सौ पन्द्रह रुपये मात्र) और उस पर ब्याज के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली शाखा के प्रभार के भुगतान के अधीन होगा। आपका ध्यान सुरक्षित सम्पत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

चुनाव आयोग ने डिजिटल मतदाता पहचान पत्र शुरू किया

नई दिल्ली, 25 जनवरी (भाषा)।

चुनाव आयोग ने सोमवार को मतदाता फोटो पहचान पत्र को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप शुरू किया जिसे मोबाइल फोन में सुरक्षित रखा जा सकता है और कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। ई-वोट कार्ड पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध होगा जिसे संपादित नहीं किया जा सकता और जरूरत पड़ने पर मतदाता इसका प्रिंट लेकर इसे तैमिनट भी करा सकता है। सोमवार को इस्वी की शुरुआत होने के बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाता चुनाव के दिन ई-वोट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं।

SPARK MINDA
 (Punjab & Haryana)
मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: ए-15, अराक विहार, फेस-1, दिल्ली - 110052
 ऑफिस: L74899DL1985PLC020401
 वेबसाइट: www.sparkminda.com ई-मेल: investor@mindaacorporation.com
 फोन: +91-124-4638400, ई-मेल: +91-124-4638450

मिंडा कॉर्पोरेशन लिमिटेड
 पंजीकृत कार्यालय: ए-15, अराक विहार, फेस-1, दिल्ली - 110052
 ऑफिस: L74899DL1985PLC020401
 वेबसाइट: www.sparkminda.com ई-मेल: investor@mindaacorporation.com
 फोन: +91-124-4638400, ई-मेल: +91-124-4638450

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट <http://www.sparkminda.com> के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट <http://www.bseindia.com> एवं <http://www.nseindia.com> पर भी उपलब्ध है।

इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी सेबी के प्रावधानों (डिडिग का निषेध) (सराधो) विनियम, 2018 के प्रावधानों के तहत शुक्रवार 04 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त हुए तिमाही एन सी माह के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों की घोषणा के 48 घंटे के बाद तक की अधि के लिए कंपनी के इक्विटी रॉयल में सीदा करने हेतु डिडिग विडो सभी नामित व्यक्तियों के लिए बंद रहेगी।

Criminal Courts, Ludhiana
 In the Court of Sh. Vijay Kumar J.M.C.
 Ludhiana **NEXT DATE: 26-02-2021**
 next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on
<http://judistricts.accounts.gov.in/ludhiana>
 Case No. PBLD03-022638-2017
 Kotak Mahindra Bank Vs Rajender Parshad
 Notice To: Rajender Parshad Sio Mohan Lal Ri Village Baramsar Tehsil Rawatsar Hanumangarh Sibi Ganganagar Rajasthan-335524
 whereas it has proved to the satisfaction of this court that the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 26-02-2021 at 10.00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details login to: https://highcourtcourt.gov.in/77srdistrict_notice&district=ludhiana J.M.C Ludhiana

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
 1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 150, मधुवा रोड, बदरपुर, नई दिल्ली-110044

कच्चा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

श्रीमती प्रसन्नवती पत्नी श्री गोविन्द राम अनापु के नाम में आवासीय सम्पत्ति सं.840, सेक्टर-37, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-122001, परिणाम क्षेत्र 266.67 वर्ग गज सांख्यिक बंधक सम्पत्ति के सभी भाग एच हिस्से को निम्नानुसार चिह्न है:-
 उत्तर: 60 फीट सड़क
 दक्षिण: अन्य सम्पत्ति
 पश्चिम: ग्रीन बेल्ट एवं प्लॉट नं.839

प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: फरीदाबाद तिथि: 22.01.2021

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India
 1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: 272, कैप्टन गार्ग मार्ग, फुंज-3, ओखला, नई दिल्ली-110020

कच्चा सूचना (चल सम्पत्ति के लिए) परिशिष्ट-IV (नियम 8 (1) देखें)

अबल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण: दूसरा तल बिना छत अधिकार के फ्रीहोल्ड सम्पत्ति सं.286 और 287 का हिस्सा (तला नं. डब्ल्यूजेड 106ए) क्षेत्र परिमाण 50 वर्ग गज (41.8 वर्ग मीटर) खसरा नं. 13/16 का भाग, गैर केशोपुर के क्षेत्र में स्थित संत गज के आबादी में, निकट पीओ तिलक नगर, नई दिल्ली-110018. जो विवरण है:
 उत्तर: गली 10 फीट
 दक्षिण: गली 10 फीट
 पश्चिम: अन्य सम्पत्ति

प्राधिकृत अधिकारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

स्थान: नई दिल्ली तिथि: 21.01.2021

COURT NOTICE
 In The Court Of Sh. Shaminder Pal Singh J.M.C-6, Jalandhar
 Cameo Sports Agencies Pvt Ltd Vs Gurbinder Singh
 CNR NO: PBJL03-009286-2019
 NEXT DATE: 16-03-2021
 Publication Issued To: Gurbinder Singh R/o Prop/ Authorized Signatory M/s Dashmesh Sports, Choudhary Complex, Sheesh Chowk, Upper Bazar, Ranchi (Jharkhand)
 In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 16-03-2021 at 10.00 a.m. for details login to: https://highcourtcourt.gov.in/77srdistrict_notice&district=Jalandhar J.M.C-6 Jalandhar

यूनियन बैंक Union Bank of India
 गुरुग्राम शाखा, एच 34, आइड सी एलएफ, बालाजी, सेक्टर-14, गुरुग्राम-122001, हरियाणा। फोन: 0124-2222790

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) में
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के अन्तर्गत में
राधाधरम कंस्ट्रक्शंस एंड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 (CIN: U51909DL2014PTC035799)
 जिसका पंजीकृत कार्यालय: 1303 / 90 त्रि नगर दिल्ली-110035 है, के मामले में
...आवेदक कंपनी/ प्राधिकृतकर्ता
 एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 24 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम प्रमाण में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) में
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के अन्तर्गत में
रैग ट्रेड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
 (CIN: U51909DL1989PTC035799)
 जिसका पंजीकृत कार्यालय: 1303 / 90 त्रि नगर दिल्ली-110035 है, के मामले में
...आवेदक कंपनी/ प्राधिकृतकर्ता
 एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 24 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम प्रमाण में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार) में
केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (6) (ए) के अन्तर्गत में
मोर मुकट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
 (CIN: U51909DL2006PTC146182)
 जिसका पंजीकृत कार्यालय: 332ए, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065, के मामले में
...आवेदक कंपनी/ प्राधिकृतकर्ता
 एतद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि वह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 24 दिसंबर 2020 को आयोजित असाधारण साधारण बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम प्रमाण में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

यूनियन बैंक Union Bank of India
 गुरुग्राम शाखा, एच 34, आइड सी एलएफ, बालाजी, सेक्टर-14, गुरुग्राम-122001, हरियाणा। फोन: 0124-2222790

कच्चा सूचना
【प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1)】
(अव्यक्त सम्पत्ति हेतु)
 जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13 के अधीन प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में **कच्चा सूचना** का अंशोक्ति प्राप्तिकर्ता होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अर्थात्: मैसर्स केशव डेवरा प्रोप्राइटर श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेठे गिरीश राम बिन्दु, निरुक्त कपलाल निरुक्त पार्क, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, कर्जदार इकाई के प्रोप्राइटर: 2, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता: प.कान नं. 433बी, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुरुग्राम, हरियाणा, नजमाती 3, श्री डेव चन्द्र दुग्गा, पता: प.नं. 564/13, नई मकान, गुरुग्राम, हरियाणा 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अर्थात् श्री तथा नजमाती द्वारा जारी के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण अर्थात् श्री तथा नजमाती को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दोस्त प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 20 नवम्बर, 2021 को कब्जा कर लिया है।

यदि/तबत रूप से अधोहस्ताक्षरी (ओं) तथा नजमाती को एवं नजमाती को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्पन्न में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अव्यक्त सम्पत्ति का विवरण
 आवासीय फ्लान प्लॉट सं. 433-बी की प्लॉट तथा फ्लान का संपूर्ण भाग, पाप 171 वर्ग मीटर, आवासीय कोलोनी सेक्टर-15, पार्ट-1, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा पर स्थित, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता से सम्बन्धित, कर्जदार: पूर्ण: प्लॉट सं. 433ए, पश्चिम: प्लॉट सं. 433बी, उत्तर: प्लॉट सं. 470बी, दक्षिण: सड़क।
 तिथि: 20.01.2021
 स्थान: गुरुग्राम

यूनियन बैंक Union Bank of India
 गुरुग्राम शाखा, एच 34, आइड सी एलएफ, बालाजी, सेक्टर-14, गुरुग्राम-122001, हरियाणा। फोन: 0124-2222790

कच्चा सूचना
【प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1)】
(अव्यक्त सम्पत्ति हेतु)
 जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13 के अधीन प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में **कच्चा सूचना** का अंशोक्ति प्राप्तिकर्ता होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अर्थात्: मैसर्स केशव डेवरा प्रोप्राइटर श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेठे गिरीश राम बिन्दु, निरुक्त कपलाल निरुक्त पार्क, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, कर्जदार इकाई के प्रोप्राइटर: 2, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता: प.कान नं. 433बी, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुरुग्राम, हरियाणा, नजमाती 3, श्री डेव चन्द्र दुग्गा, पता: प.नं. 564/13, नई मकान, गुरुग्राम, हरियाणा 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अर्थात् श्री तथा नजमाती द्वारा जारी के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण अर्थात् श्री तथा नजमाती को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दोस्त प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 20 नवम्बर, 2021 को कब्जा कर लिया है।

यदि/तबत रूप से अधोहस्ताक्षरी (ओं) तथा नजमाती को एवं नजमाती को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्पन्न में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अव्यक्त सम्पत्ति का विवरण
 आवासीय फ्लान प्लॉट सं. 433-बी की प्लॉट तथा फ्लान का संपूर्ण भाग, पाप 171 वर्ग मीटर, आवासीय कोलोनी सेक्टर-15, पार्ट-1, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा पर स्थित, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता से सम्बन्धित, कर्जदार: पूर्ण: प्लॉट सं. 433ए, पश्चिम: प्लॉट सं. 433बी, उत्तर: प्लॉट सं. 470बी, दक्षिण: सड़क।
 तिथि: 20.01.2021
 स्थान: गुरुग्राम

यूनियन बैंक Union Bank of India
 गुरुग्राम शाखा, एच 34, आइड सी एलएफ, बालाजी, सेक्टर-14, गुरुग्राम-122001, हरियाणा। फोन: 0124-2222790

कच्चा सूचना
【प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का नियम 8(1)】
(अव्यक्त सम्पत्ति हेतु)
 जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 13 के अधीन प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में **कच्चा सूचना** का अंशोक्ति प्राप्तिकर्ता होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अर्थात्: मैसर्स केशव डेवरा प्रोप्राइटर श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेठे गिरीश राम बिन्दु, निरुक्त कपलाल निरुक्त पार्क, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, कर्जदार इकाई के प्रोप्राइटर: 2, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता: प.कान नं. 433बी, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुरुग्राम, हरियाणा, नजमाती 3, श्री डेव चन्द्र दुग्गा, पता: प.नं. 564/13, नई मकान, गुरुग्राम, हरियाणा 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अर्थात् श्री तथा नजमाती द्वारा जारी के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण अर्थात् श्री तथा नजमाती को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दोस्त प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 20 नवम्बर, 2021 को कब्जा कर लिया है।

यदि/तबत रूप से अधोहस्ताक्षरी (ओं) तथा नजमाती को एवं नजमाती को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्पन्न में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अव्यक्त सम्पत्ति का विवरण
 आवासीय फ्लान प्लॉट सं. 433-बी की प्लॉट तथा फ्लान का संपूर्ण भाग, पाप 171 वर्ग मीटर, आवासीय कोलोनी सेक्टर-15, पार्ट-1, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा पर स्थित, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता से सम्बन्धित, कर्जदार: पूर्ण: प्लॉट सं. 433ए, पश्चिम: प्लॉट सं. 433बी, उत्तर: प्लॉट सं. 470बी, दक्षिण: सड़क।
 तिथि: 20.01.2021
 स्थान: गुरुग्राम

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda
 शाखा कार्यालय: प्लॉट नं. 14 नगर चारिकला कार्यालय के पास, दिल्ली - हापुर रोड, एन.एच. - 24, गाजियाबाद (सूची)

कच्चा सूचना नियम 8(1) के अंतर्गत

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिशिष्टियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत में **कच्चा सूचना** का अंशोक्ति प्राप्तिकर्ता होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अर्थात्: मैसर्स केशव डेवरा प्रोप्राइटर श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता, सेठे गिरीश राम बिन्दु, निरुक्त कपलाल निरुक्त पार्क, गुरुग्राम-122001, हरियाणा, कर्जदार इकाई के प्रोप्राइटर: 2, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता: प.कान नं. 433बी, सेक्टर-15, पार्ट-1, गुरुग्राम, हरियाणा, नजमाती 3, श्री डेव चन्द्र दुग्गा, पता: प.नं. 564/13, नई मकान, गुरुग्राम, हरियाणा 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अर्थात् श्री तथा नजमाती द्वारा जारी के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण अर्थात् श्री तथा नजमाती को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढ़े गए कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दोस्त प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत में यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति पर 20 नवम्बर, 2021 को कब्जा कर लिया है।

यदि/तबत रूप से अधोहस्ताक्षरी (ओं) तथा नजमाती को एवं नजमाती को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्पन्न में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन 04.09.2020 तक सूचना में उल्लिखित राशि र. 1,10,19,394.02 (रुपये एक करोड़ दस लाख 20 हजार 394 रुपये) एवं पी सी चौराणे एच बी सी चौराणे तथा का पुनर्निर्माण करने के लिए करते हुए निदेशक 05.09.2020 को एक पत्र सूचना जारी की थी।

अव्यक्त सम्पत्ति का विवरण
 आवासीय फ्लान प्लॉट सं. 433-बी की प्लॉट तथा फ्लान का संपूर्ण भाग, पाप 171 वर्ग मीटर, आवासीय कोलोनी सेक्टर-15, पार्ट-1, अर्बन एस्टेट, गुरुग्राम, हरियाणा पर स्थित, श्री सतीश गुप्ता पुत्र श्री रमेश चन्द्र गुप्ता से सम्बन्धित, कर्जदार: पूर्ण: प्लॉट सं. 433ए, पश्चिम: प्लॉट सं. 433बी, उत्तर: प्लॉट सं. 470बी, दक्षिण: सड़क।
 तिथि: 20.01.2021
 स्थान: गुरुग्राम

अन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
 सीआरएफ: L659109P1993PLC070612
 पंजी. कार्या: शा. नं. 3 ए-14/6, प्रथम तल, शा. चार, संजय चौर, आरार-282002
 ई-मेल: annainfra@gmail.com, वेबसाइट: www.annainfrastructures.com, टेलीफोन: 0662-2526650

सूचना
 सेबी (सूचीबद्ध अधिनियमों एवं प्राकटीकरण अधिनियम) विनियमवली 2015 के विनियमन 29